



16th May, 2024

To, The Manager **Listing Department** National Stock Exchange of India Limited Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051

Subject: Disclosure regarding publication of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2024 in Newspapers

Dear Sir/ Ma'am,

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper clippings of audited financial results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2024, published in 'Financial Express' (English Newspaper) and 'Indore Samachar' (Hindi Newspaper) on 16th May, 2024 pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for the information of the Exchange and members thereof. Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Shanti Oyerseas (India) Limited

Company Secretary

(Rs. in Lakh

SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED

Registered Office: 203, 2st Floor, N.M. Verge, 8/5 Yeshwant Niwas Road, Indore MP 452003 IN Tel: +91-731-4020586, +91-731-4020587 Email Id: mail@shantioverseas.com

(Rs in Lakhs)

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

	Particulars		uarter Ende	Year Ended		
Sr.	0.0000000000	31-03-2024	31-12-2023	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
No		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income From Operation	122.04	289.29	502.32	1,142.95	14,961.62
2	Net Profit / (Loss)	4870900409	19100001000	100000000	11.00 to 10.00 to 10.	204007000440
	(before taxes and Extraordinary items)	(61.41)	(42.63)	(1241.91)	(205.31)	(2308.63)
3	Net Profit / (Loss) before taxes	evalente.	0.0077000000	V0400000000000000000000000000000000000	1500-1501-1-000	11200000000000
	(after Extraordinary items)	(61.41)	(42.63)	(1241.91)	(205.31)	(2308.63)
4	Net Profit / (Loss) after taxes	0000000000	5000000000	June Comment	Secretary and a	50000000000000000000000000000000000000
	(after Extraordinary items)	(9.07)	(42.56)	(684.92)	(152.95)	(1,693.02)
5	Total Comprehensive Income for the period	200000000	University of	100000000000	ALC: NEXOSIO	404000000000000000000000000000000000000
	(comprising profit (loss) and other comprehensive	7/2/23/99/5	558600	9233670861		XX-1X0:X4
	income for the period after tax)	(8.95)	(42.57)	(685.08)	(152.87)	(1,691.86)
6	Paid-up equity share capital	Annousement	VICTORIOS	007899333333	50000305666	NI/CUSSION
	(Face Value Rs.10/- each)	1,110.60	1,110.60	1,110.60	1,110.60	1,110.60
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per				4490000	800000
	balance sheet of previous accounting year)			2.5	286.46	439.79
8	Earnings per share (for discontinued & continuing					
	operation) :					
	(a) Basic	(0.08)	(0.38)	(6.17)	(1.38)	(15.24)
	(b) Diluted	(0.08)	(0.38)	(6.17)	(1.38)	(15.24)

The Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on 31° March, 2024 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable beginning 1st April, 2020, the Company has for the first time adopted Ind AS with the transition date of 1st April, 2019. Additional information on Standalone Financial Results are given below: (Rs in Lakhs)

Quarter Ended Year Ended **Particulars** 31-03-2024 31-12-2023 31-03-2023 31-03-2024 31-03-2023 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) Total Income from operations (net) 66.05 289.13 516.02 1.087.16 2.593.09 Profit/Loss before tax (43.12) (16.27)(774.99)(126.94)(1,447.69)Profit/Loss after tax (10.93)(16.27)(434.16) (94.94) (1,051.72

- The above results were reviewed by the audit committee at their meeting held on 14th May, 2024 and thereafter approved by Board of Directors at their meeting held on 14th May, 2024.
- The previous period figures have been regrouped/rearranged wherever found necessary.
- The figures for the guarter ended 31st March, 2024 and 31st March, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended on those dates and the published unaudited year to date figures upto 31st December, 2023 and 31st December, 2022 respectively.
- The above is an extract of the detailed format of Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31° March, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2024 are available on the website of the company i.e. www.shantioverseas.com and on the website of NSE (www.nseindia.com).

Shanti Overseas (India) Limited Ayush Kacholia Managing Director DIN:-03096933

Quarter Quarter Quarter

For & on behalf of the Board of Directors

WONDER ELECTRICALS LIMITED

(Formerly Known as Wonder Fibromats Limited) Regd. Office: 45, Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110020 CIN: L31900DL2009PLC195174, Website: www.wonderelectricals.com, Ph. No.: 011- 66058952

Extract of Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March, 2024

	F				(Rupe	s in Lakhs
S.		Q	uarter Ende	Year Ended		
No.	Particulars	Audited 31-Mar-24	Unaudited 31-Dec-23	Audited 31-Mar-23	Audited 31-Mar-24	Audited 31-Mar-23
1	Total Income from Operations	25929.41	13116.32	14650.99	56999.02	40251.92
2			398.67	757.48	1452.40	889.50
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	957.12	398.67	757.48	1452.40	889.50
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	653.08	299.29	546.02	1015.59	629.06
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	653.08	299.29	546.02	1015.59	629,06
6	Equity Share Capital (Face value Rs. 2 each) Preference share capita (Unlisted)	1340.08	1340.08	1340.08	1340.08 1992.67	1340.08
7	Reserves(excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				5454.26	4621.49
8	Earnings per share (face value of Rs. 10/- per share) (not annualised)					
	Basic earnings per share (in rupees)	4.87	2.23	4.07	7.58	4.69
	Diluted earnings per share (in rupees)	4.87	2.23	4.07	7.58	4.69

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarter and Year Ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Company's website (www.wonderelectricals.com.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com)
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 15, 2024. The Audited Report for the guarter and Year ended 31st March, 2024, has been carried out by the Statutory Auditor, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015.
- Figure of the previous periods have been regrouped /rearranged, wherever necessary. On behalf of the Board

For Wonder Electricals Limited

Managing Director DIN: 00811667

Yogesh Sahni

Place : Kolkata

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH P LTD. HAVING A **MULTISPECIAILITY HOSPITAL AT MATHURA, UTTAR PREDESH** (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS Name of the Corporate Debtor Nayati Healthcare & Research Pvt. Ltd. along with PAN/CIN/LLP No. CIN: U85100HR2013PTC048389 | PAN: AAECN2701N Address of the registered office Registered Address: 901, 201, Heritage City, MG Road Phase-2, DLF City Haryana - 122022 Hospital Address: NH 19, Mathura Road, Goverdhan Bypass, Nayati Mor, Chhatikara, Uttar Pradesh - 281001 URL of website http://nayatihealthcarecirp.com Mathura, Uttar Pradesh Details of place where majority of fixed assets are located Multispecialty Hospital at Mathura Installed capacity of main products/ services Quantity & value of main products/ NIL - Hospital was closed and in possession of services sold in last financial year secured financial creditor Further details including last available | Can be obtained by sending an email to: financial statements (with schedules) | cirp.nayatihealthcare@gmail.com / of two years, lists of creditors, relevant bajaj.vikram@gmail.com dates for subsequent events of the process are available at: Eligibility for resolution applicants Can be obtained by sending an email to: under section 25(2)(h) of the cirp.nayatihealthcare@gmail.com / bajaj.vikram@gmail.com Code is available at Last date for receipt of expression 31-05-2024 of interest Date of issue of provisional list of 10-06-2024 prospective resolution applicants Last date for submission of 15-06-2024 objections to provisional list Date of issue of final list of 25-06-2024 prospective resolution applicants Date of issue of information 30-06-2024 memorandum, evaluation matrix and request for resolution plan to prospective resolution applicants Last date for submission of 30-07-2024 resolution plans Process email id to submit EOI cirp.nayatihealthcare@gmail.com Vikram Bajaj Resolution Professional for Nayati Healthcare & Research P Ltd. Registration No: IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-17/10003

AFA No: AA2/10003/02/181024/202919 | Valid up to: 18-10-2024 Date: 16.05.2024 Add.: 214, Tower A, Spazedge, Sector 47, Gurgaon -122018. Place: Gurgaon

COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED

Registered Office: Colgate Research Centre, Main Street, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai 400 076 **CIN**: L24200MH1937PLC002700 Tel: +91 (22) 6709 5050

Email Id: investors grievance@colpal.com **Website**: www.colgatepalmolive.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Lakhs)

Place: New Delhi

Date: 15.05.2024

	Particulars	Ended March 31, 2024 (Audited)	Ended December 31, 2023 (Unaudited)	Ended March 31, 2023 (Audited)	Ended March 31, 2024 (Audited)	Ended March 31, 2023 (Audited)
1	Revenue from operations	1,49,001	1,39,565	1,35,063	5,68,043	5,22,619
2	Profit Before Exceptional Item and Tax	51,136	44,340	42,806	1,80,083	1,42,088
3	Profit Before Tax (After Exceptional Items)	51,136	44,340	42,619	1,78,133	1,40,967
4	Net Profit After Tax for the period	37,982	33,011	31,622	1,32,366	1,04,714
5	Total comprehensive income for the period	38,005	33,011	31,133	1,32,389	1,04,225
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value: Re 1/- per share)	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
7	Reserve excluding Revaluation Reserve				1,84,716	1,68,919
8	Basic and Diluted Earnings per share (of Re 1/- each)	13.96	12.14	11.63	48.67	38.50

Notes:

Place: Indore

Date: 14/05/2024

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Company at https://www.colgatepalmolive.co.in/ and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. https://www.bseindia.com/ and https://www.nseindia.com/.
- 2. The Company has declared a Second Interim dividend of Rs.26/-per share and One-time Special Interim Dividend of Rs10/- per share aggregating to Rs.97,915 Lakhs on May 14,2024 for FY2023-24 which will be paid on and from June 7,2024.

Mumbai May 14, 2024

pursuant to Section 102 of the Act ("Postal Ballot").

www.evoting.kfintech.com.

End of Remote E-Voting

Commencement of Remote E-Voting

CAPITAL INDIA

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. 011-4954 6000

Corporate Office: Level - 20, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030,

Ph. No. 022-4503 6000

Website: www.capitalindia.com, Email ID: secretarial@capitalindia.com Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING INFORMATION TO THE MEMBERS NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013

"Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the

Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations, (including any

statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time

to time) and General Circular No.(s) 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), read with Securities and

Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023.

(hereinafter collectively referred to as "Circulars"), the approval of the Members of Capital India Finance

Limited ("Company"), is being sought through Postal Ballot by voting only through electronic means ("Remote

E-Voting") vide Notice dated May 10, 2024 together with the explanatory statement ("Postal Ballot Notice")

The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice on May 15, 2024 by email only, to those

Members who have registered their email addresses with the Company or KFin Technologies Limited, the

("DPs") and whose name appears in the register of members/list of beneficial owners as on Friday, May 10,

2024 ("Cut-off Date"). Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot form and prepaid

Members of the Company holding shares either in physical or electronic form as on the Cut-off Date shall cast

their vote electronically. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up

equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Once the vote on the Resolution is cast by a

The Postal Ballot Notice indicating the instructions for Remote E-Voting along with the explanatory statement

is also available on the website of the Company at www.capitalindia.com, on the website of BSE Limited

at www.bseindia.com, where the shares of the Company are listed and on the website of KFintech at

The communication of assent or dissent by the Members would take place only through Remote E-Voting. In this regard the Company has engaged the services of KFintech, for providing the Remote E-Voting facility to

The Remote E-Voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the Remote E-Voting module

Any member who has not received the Postal Ballot Notice, may obtain the same by sending an email to

The result of the Postal Ballot will be announced on or before June 15, 2024, at the registered office of the

Company situated at 2rd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001 and shall be communicated

to BSE Limited and would also be displayed at the registered office of the Company and on its website

For any query and/or grievance, in respect of Remote E-Voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and Remote E-Voting user manual available at the download section of

https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact Mr. N Shiva Kumar, at evoting@kfintech.com or call

The Members who have not registered their e-mail addresses, are requested to register their e-mail addresses

with their depository participants in respect of shares held in electronic form. In respect of shares held in

physical form, Members are requested to register/update their email addresses with KFintech by submitting

form ISR-1 (available on the website of the Company at www.capitalindia.com) duly filed and signed along with

requisite supporting documents to evoting@kfintech.com or at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32,

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Postal Ballot Notice and in particular, the

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500 032.

09:00 a.m. (IST) on Thursday, May 16, 2024 05:00 p.m. (IST) on Friday, June 14, 2024

business reply envelope, have not been sent to the Members for this Postal Ballot.

the Members. The Remote E-Voting facility will be available during the following period:

shall be forthwith disabled by KFintech upon expiry of the aforesaid period.


KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

KFintech at evoting@kfintech.com under the copy to secretarial@capitalindia.com.

member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

strar and Share Transfer Agent of the Company ("KFintech") or depository / depository participan

Colgate-Palmolive (India) Limited **Prabha Narasimhan Managing Director and CEO DIN: 08822860**



SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE LIMITED

(formerly known as Summit Digitel Infrastructure Private Limited) CIN - U64200MH2013PLC375466

Registered Office: Unit 2, 9th Floor, Tower 4, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (W), Mumbai - 400070, Maharashtra, India. Phone: 022 69075252, Email: secretarial@summitdigitel.com Website: www.summitdigitel.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Million, except per share data and ratios)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2024	Quarter ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	33,679	26,655	1,28,204	1,09,892
2	Net Profit / (Loss) for the period	80/30/24/	1000000000	A CONTRACTOR	
0.00	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,273)	(6,763)	(30,377)	(31,909
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	60.00000	0.000.000000	60600605-500	
20.2	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,273)	(6,763)	(30,377)	(31,909
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	10.00	200	Man 53	
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7,273)	(6,763)	(30,377)	(31,909
5	Total Comprehensive Income for the period	305 525	52, 53	100 305	
	[Comprising Profit / (Loss) (after tax) and Other				Unique Children
99	Comprehensive Income (after tax)]	(7,687)	(6,902)	(30,936)	(32,124
6	Paid-up Equity Share Capital	2,150	2,150	2,150	2,15
7	Reserves	(1,49,547)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1,49,547)	(1,18,611
8	Net Worth (refer note 8)	(1,45,691)	(1,15,313)	(1,45,691)	(1,15,313
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	5,56,912	5,44,339	5,56,912	5,44,33
10	Outstanding Redeemable Preference Shares (refer note 3)	159	147	159	14
11	Debt Equity Ratio (times) (refer note 4)	1			
12	Earning per Equity Share of face value of Re. 1/- each	0000000	500,000	100000000	
F-1	- Basic (in Rupees)	(3.38)	(3.15)	(14.13)	(14.84
	- Diluted (in Rupees)	(3.38)	(3.15)	(14.13)	(14.84
13	Debenture Redemption Reserve (refer note 5)	Monad	5210037	0301033310	
14	Debt Service Coverage Ratio	0.80	0.78	0.78	0.7
15	Interest Service Coverage Ratio	0.80	0.78	0.78	0.7

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 14, 2024. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with National Stock Exchange of India Limited ("Stock Exchange") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the website of the Stock Exchange i.e. www.nseindia.com and on the website of

Details of Outstanding Unlisted Redeemable Preference Shares (RPS).

the Company at www.summitdigitel.com.

Particulars	As at Ma	rch 31, 2024	As at March 31, 2023		
	No. of RPS	Par value (Rs. in million)	No. of RPS	Par value (Rs. in million)	
0% Redeemable, Non-Participating, Non-Cumulative, Non-Convertible Preference Shares*	5,00,00,000	500	5,00,00,000	500	

each aggregating to Rs. 500 million as on April 1, 2020. With effect from August 21, 2020, the terms of the Cumulative, Participating, Optionally Convertible Preference Shares of Rs. 10/- each were amended to Redeemable, Non-Participating, Non-Cumulative, Non-Convertible Preference Shares of Rs. 10/- each. The preference shares are mandatorily redeemable at par for an amount equal to the aggregate par value at the end of 20 years i.e. March 31, 2039 from the date of issuance. Accordingly, the Preference Shares have been classified as a liability and have been recognised at the present value of redemption amounting to Rs. 159 million as on March 31, 2024 (Rs. 147 million as on March 31, 2023).

As the Debt-Equity ratio is less than zero, the ratio is shown as nil. Debenture Redemption Reserve (DRR) is not required to be created due to absence of profits available for payment of

- dividend. The Company has accumulated losses as at March 31, 2024. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
- 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of the Stock Exchange i.e. www.nseindia.com and also on the website of the Company i.e. www.summitdigitel.com.
- These extract of Financial Results have been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div1/ P/CIR/2022/0000000103 dated July 29, 2022.

Net Worth: Total Equity excluding other comprehensive income.

Summit Digitel Infrastructure Limited (formerly known as Summit Digitel Infrastructure Private Limited)

Dhananjay Joshi Managing Director

SUMEDHA adding values to value

SUMEDHA FISCAL SERVICES LIMITED CIN: L70101WB1989PLC047465

Regd.& Corp. Office: 6A, Geetanjali, 8B Middleton Street, Kolkata - 700 071 Tel: (033) 2229 8936/6758 Email: investors@sumedhafiscal.com

Website: www.sumedhafiscal.com

Extract of Statement of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter/Year Ended 31.03.2024

	Qu	arter ended		Year ended	Year ended	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
Total Income from Operation (net)	3307.56	2098.18	1007.74	9661.46	6073.67	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	207.97	130.30	(185.71)	939.24	163.98	
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	207.97	208.12	(185.71)	939.24	163.98	
Net Profit/(Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	213.89	166,31	(174.30)	784.79	122.08	
Minority Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Share of profit / (Loss) of Associates	(35.34)	(6.68)	89.30	(19.54)	30.73	
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after Tax)]	178.55	159.63	(85.01)	765.25	152.78	
Equity Share Capital	798.44	798.44	798.44	798.44	798.44	
Reserves (excluding Revaluation Reserves as per Ind- AS.)	_	_	_	4943.09	4281.46	
Earnings per share of Rs.10/- each						
(a) Basic (Rs.)	2.24	2.00	(1.06)	9.58	1.91	
(b) Diluted (Rs.)	2.24	2.00	(1.06)	9.58	1.91	
Note:						

1. Information on Standalone Finan		(Rs. in Lakn)			
		arter ended	FIG. 10 (1974) 200 (2007) (1975) ACC (1975)	Year ended	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1. Turnover	3301.30	2092.21	1002.12	9637.66	6052.59
2. Profit/(Loss) before tax	202.57	202,62	(190.10)	918.49	145.37
3. Profit /(Loss) after tax	215.45	161.11	(181.96)	771.74	101.91

The full format of the Audited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's Website (www.sumedhafiscal.com)

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their Meetings held on 14th May, 2024.

The Company has adopted NBFC Indian Accounting Standards (IND AS) as per Schedule III Div. III notified by the Ministry of Corporate Affairs. Accordingly the Financial Results (Standalone/Consolidated) for the Quarter/Year ended on 31st March, 2024 are in compliance with NBFC Format and other accounting principles generally accepted in India and the results for comparative year ended on 31st March, 2023 are also compliant with IND AS NBFC format.

The Board of Directors has recommended a Dividend of Re.1/- per share (Face Value Rs.10/- each) (Previous year Re.1/- per share) for the year ended 31st March, 2024 subject to approval by Shareholders at the ensuing 35th Annual General Meeting.

Previous period figures have been regrouped/ rearranged wherever found necessary to compare with the current period.

For and on behalf of the Board of Directors Bhawani Shankar Rathi Whole - Time Director

DIN: 00028499 Date : 14th May, 2024 Nandani NANDANI CREATION LIMITED

Regd. Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006 Phone: 0141-4037596, CIN: L18101RJ2012PLC037976 Web-site: www.nandanicreation.com, e-mail:cs@jaipurkurti.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

(Figures in Lacs except EPS) STANDALONE FINANCIAL RESULTS **PARTICULARS** QUARTER ENDED YEAR ENDED 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 (UNAUDITED) (AUDITED) (AUDITED) (AUDITED) (AUDITED) Total Income from Operations 1944.87 1015.49 1085.14 4423.24 4525.35 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 256.15 101.53 90.86 54.93 14.38 and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After 256.15 101.53 90.86 14.38 Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After 200.50 69.99 99.53 49.21 10.99 Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period 200.45 71.26 104.55 50.98 16.21 Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each) 1143.54 1044.44 1143.54 1143.40 1044.44 Earnings per Share (of Rs. 10/- each) Basic (not annualized for quarters) 1.75 0.61 1.00 0.45 0.16 Diluted (not annualized for quarters) 1.75 0.61 1.00 0.45 0.16

		ľ	CONSO	LIDATED FINANCIAL	RESULTS	
Sr.	PARTICULARS		QUARTER ENDED	YEAR ENDED		
No.		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(AUDITED)	(UNAUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
1.	Total Income from Operations	1995.19	846.81	1091.02	4585.06	4953.72
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	353.80	66.55	101.07	55.06	14.35
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	353.80	66.55	101.07	55.06	14.35
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	274.12	45.46	109.66	54.60	10.99
5.	Total Comprehensive Income for the period	274.23	47.01	114.94	57.44	16.83
6.	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1143.54	1143.40	1044.44	1143.54	1044.44
7,	Earning per Share (of Rs. 10/- each)					
	Basic (not annualized for quarters)	2.40	0.41	1.10	0.50	0.16
	Diluted (not annualized for quarters)	2.40	0.41	1.10	0.50	0.16

A) The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 14th May, 2024. B) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Quarter & year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full Format of the statement of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.nandanicreation.com) and on the website of the National Stock Exchange of India imited (www.nseindia.com).

For NANDANI CREATION LIMITED

ANUJ MUNDHRA CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

(Figures in Lacs except EPS)

financialexp.ep

manner of casting vote through Remote E-Voting.

Place: New Delhi Date: May 15, 2024

CIN: L74110MP2011PLC025807 Website: www.shantioverseas.com

> Rachit Malhotra Chief Compliance Officer & Company Secretary

For Capital India Finance Limited

Date: May 14, 2024

For and on behalf of the Board of Directors of

Date: 15.05.2024 Place: Jaipur

DIN: 05202504

इन्दौरइलेक्शन खास एक प्रत्याशी के आधे खर्चे में निपट गए चुनाव

इन्दौर्। कांग्रेस के प्रत्याशी की नाम वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से लेकर प्रत्याशियों तक में उत्साह की भारी कमी देखी गई। एकतरफा चुनाव को लेकर जहाँ प्रत्याशी आशान्वित नजर आ रहे थे, वहीं प्रचार-प्रसार को लेकर भी भारी कमी देखी गई। दो मुख्य पार्टियों सहित 12 निर्दलीय मैदान में थे। उसके बावजद एक प्रत्याशी के आधे खर्च में ही पूरा चुनाव निपट गया। 14 प्रत्याशी मिलकर भी 95 लाख तक खर्च नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पत्याशी के दल बदलने के बाद भाजपा के सामने चुनौती खत्म हो गई थी। जिले में कांग्रेस के मैदान में नहीं होने के कारण मतदाताओं में भी उत्साह लगभग खत्म हो गया था। अधिकांश मतदाता छुट्टियों का लाभ उदाते हुए जहां घूमने निकल गए थे वहीं कई मतदाताओं ने घर में रहने के बावजद मतदान के अधिकार का परोग नहीं किया। प्रचार–प्रसार को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी थी, लेकिन नीरस हुए लोकसभा चुनाव में 14 प्रत्याशी भी मिलकर इतना खर्च नहीं कर पाए। 36 लाख 90 हजार 899 के खर्च में इंदौर जिले में प्रत्याशियों ने चुनाव लड़



वोटिंग के लिए एडी-चोटी का जोर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आखिरी समय तक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एडी-चोटी का जोर लगाते नजर आए। व्यापार-व्यवसाय चाल रखकर कर्मचारियों को मतदान से वचित रखने वालों पर कलेक्टर का डंडा चला। आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर ताला लगाने की कार्रवाई एसडीएम व एडीएम द्वारा की गई, जिसके बाद दोपहर बाद से ही मतदान प्रतिशत में अचानक उछाल आया। पहली बार मैदान में उतरे 14 प्रत्याशियों के साथ नोटा को लेकर सबसे अधिक प्रचार-प्रसार हुआ।

बस यूं ही शांता पारेख, इन्दीर

9425311944

सीमा क्या हो

एक नो साल छोटी बिटिया ने कुछ मुक्तक अपने स्कूल के बाल सभा में सुनाए, जिसका आशय बहुत सकारात्मक था कि कोई चिड़िया को छूता तो वह भाग जाती हाथ न आती कोई मुझे छुएगा तो मैं प्रतिकार करूगी,सामना करूंगी साहस से भिड़ जाऊंगी चिक्राउंगी ,हौंसला देखा अच्छा लगा,बस इतना पूछती हूँ कि अभी तक जितने दुष्कर्म हुए है उपमें नहीं चिळाई क्या पतिकार नहीं किया क्या किया ही था तो भी हुआ ही।अभी मिर्ची, स्प्रे छोटी कैंची, व आजकल स्वरक्षा के गुर भी सिखाये ही जाते है।तो भी कई मामले दर्ज हो रहे है व सजा भी हो रही है। पर आजकल स्मार्ट फोन पर जो उपलब्ध है, ड्रग सेवन की जो सुविधाएं स्कूल कॉलेज के बाहर पान की दुकानों में बिक रही है बड़े बड़े माफिया सिक्रय है, सीमापार से कितनी ड्रग पूरे देश मे आ रही है, पंजाब तो आकंठ डूबा है। ऐसे में दरिंदगी से कैसे बचा जाएगा।फिर ये समूह में भी होतेहै।इसके अलावा परिवार के अंदर शादी ब्याह के अवसर पर ये सब इस तरह घटित होता कि न कहते बनता न सहते तो, कई बार तो माँ खुद ही कहती चुप होजा किसी को मत बताना अगर मामा का लड़का या उसका दोस्त हो तो,या समधियाने का कोई हो तो दुल्हन के हित में चुप्पी साधी जाती है। हजारों कानून होते हुए भी गर्भपात की सुविधाएं है। नवरात्रि के गरबे के नाम पर जो होता वह किसी भी गुजराती डॉक्टर से पूछ लो खुद नजरे नीची हो जाती है। पढाई के नाम से विवाह की उम्र बढती जा रही है। अब तो बात पूव करने तक पहुंच गई है। तो ऐसी परिस्थिति ज्यादा बन रही है। रिसोर्ट की शादियां कितनी खतरनाक हो गई है, रिश्तों की शालीनता ने लक्ष्मण रेखाएं तोड दी है। फिर लडिकयों के भड़काऊ परिधान व हीरो हीरोइनों के किस्से जो बाजार में तैरते है। कभी लगता है समाज इन दुर्घटनाओ को स्वीकारने लगा है। शादी की उम्र घटाना ही एक मात्र उपाय दिख रहा। पढ़ाई के बाद प्रूव करने की इजाजत तो बिल्कुल भी नही होनी चाहिए। इतने पहले से घर से दूर फिर पैसा आने से स्वछंदता को कैसे रोका जा सकता है। सिर्फ नारे उछालना नहीं? बच्चे सुनते नहीं कह कर छूटने की कहानी बेकार है। गौना शब्द बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। पढ़ने की चाह हो तो राह भी है पर पढाई के नाम पे जो होस्टल्स में हो रहा है। उससे कोई भी अनभिज्ञ नही तो नाटक करना सभ्य समाज बंद कर आंखे दो चार करे समाज। एक लड़की जो एक साल एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह अमेरिका रह कर कई आई, उसकी क्लास मेंट के चार बच्चे हो चुके है जिनके फोटो वह फेसबुक पे डालती है।

– स्कुल संचालक द्वारा दुष्कर्म मामले में जीतु का बड़ा आरोप, कहा

आरोपी भाजपा से जुड़ा, इसलिए नहीं चला बुलडोजर

इंदौर। राजधानी भोपाल में स्कूल संचालक द्वारा मासूम से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि आरोपी भाजपा से जुड़ा हुआ है। मप्र की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ग्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने कहा- भोपाल के स्कूल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ। उसका संचालक बीजेपी से जुड़ा है। इसलिए बुलडोजर की बात नहीं की जा रही। और कोई होता तो अब तक उसका घर टूट चुका होता। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले विधानसभा में बड़ी हार के बाद पूरी कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा। नतीजे डबल डिजिट में सीटें आ जाएं तो आश्चर्य मत करना। अब हमारा काम संगठन को मजबत करना है। हमारी क्या कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव आते-आते भाजपा का 29 पार का नारा गायब हो गया। इसी तरह भाजपा ने हर पोलिंग पर 375 मत बढ़ाने की जो बात की थी। मतदान के पहले चरण में ही 35 फीसदी बूथों पर इसकी हवा निकल गई।

झूट बोलते हैं प्रधानमंत्री जीतु पटवारी ने कहा कि झूठ और मोदी जी एक दम्में के लग्ने जीत पटवारी ने कहा कि हुत और मोदी वी एक दूसरे के पार्थी में मार्थ में वीएस है मोदी जी ने कांग्रेस के 5 न्याय और 25 मार्टरी पर कहा था कि कांग्रेस आपका मगर सुन छीन लेगी, इसकी दुनिया में आलोचना हुई। फिर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की स्पर्धीय पर पहला हक मुसलमानों का है। देश के प्रधानमंत्री ने इतना बहा हुद बीला। प्रधानमंत्री ने इतना बहा हुद बीला। प्रधानमंत्री निष्कर्त मफरत और कृपा पर चुनाव चाहते हैं। उन्होंने 10 साल के कामी के बजाय कांग्रेस के न्याय पर चुनाव में चार्च की। बीज़ेपी के घोषणापत्र को जारी करने के बाद उस पर किसी बीज़ेपी नेता ने चर्चा तक नहीं की।

प्रदेश में माफिया राज का लगाया आरोप जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव को 5 महीने में 5 पत्र लिखें। उनने पूछा कि आपके पास क्या कांद्रम रोकने की कोई योजना है। आग मुहमत्री का पद छोड़ दो, आपसे जिम्मेदारी नहीं संभव रहीं। जाहां से मुख्यमंत्री आते हैं वहां छोटी – बड़ी 13 घटनाएं हो चुकी हैं। शहडोल में माफिया लगाता हमारे जोबाज अधिकारी कर्मचारियों छो हत्या कर रहे हैं। लेकिन, सरकार आपका टेंडर करवा देंगे । आपने दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं । बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे कि किस विभाग में और मुख्यमंत्री के कार्यालय में कौन – कौन से दलाल सित्रय हैं ।

भाजपा प्रत्याशी का ही रिकार्ड ब्रेक करेंगे शंकर

किसका कितना खर्च

प्रत्याशी के रूप में मैदान में रहे भाजपाई शंकर लालवानी ने चुनाव

पचार खत्म होने के पहले तक लगभग

किया। वहीं दूसरी मुख्य पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी

संजय लक्ष्मण सोलंकी ढाई लाख रुपए

ही खर्च कर पाए। कामरेड अजीतसिंह

का कुल खर्च 1 लाख 8 हजार 305 रुपए था। वहीं अभा परिवार पार्टी के

पवन कुमार ने 1 लाख 56 हजार रुपए में चनाव लड लिया। जनसंघ पार्टी के

बसंत गेहलोत ने अपने पक्ष में प्रचार-

प्रसार करने में 30 हजार 375 रुपए

ही खर्च किए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी

अभय जैन ने बसपा के पत्याणी को

टक्कर देते हुए 2 लाख 15 हजार

219 रुपए खर्च किए। निर्दलीय

आजाद अली 30 हजार, इंजीनियर

अर्जन परिहार 1 लाख 41 हजार

876, देशभक्त ॲकित गुप्ता 98 हजार

500. परमानंद तोलानी 25 हजार

500, एडवोकेट पंकज गुप्ते 26 हजार

340 रुपए ही खर्च कर पाए।

लोकसभा चुनाव में मुख्य पार्टी के

. अधिक वोटों से जीतते हैं तो वे अपनी ही पार्टी के केसी पटेल का पिछले चुनाव में बनाया गया रिकार्ड तोड़ देंगे। केसी पटेल 6 लाख 89 हजार वोटों से जीते थे। इसके पहले यह रिकार्ड माकपा के अनिल बसु के नाम था। नए-नए रिकार्ड बनाने वाला इंदौर शहर अब लोकसभा चुनाव में भी कई रिकार्ड बनाने जा रहा है। इंदौर में पहले कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापसी के आखरी दिन चुनाव लडने से मना करना, कांग्रेस के मैदान में नहीं होने के बावजूद रिकार्डतोड मतदान और अब परिणाम को लेकर भी रिकार्ड बनने के दावे किए जा रहे हैं। इस बा 25 लाख 26 हजार 803 मतदाताओं में से करीब साढ़े 15 लाख मतदाताओं ने अपने मतदान क इस्तेमाल किया है। इसको लेकर अब लोगों में और उत्सकता बढ़ गई है कि शंकर लालवानी को कितने वोट मिलेंगे। हालांवि

भाजपा नेता अब 8 लाख की बजाय 11 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। अगर लालवानी इन वोटें से जीतते हैं तो वे पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी केसी पटेल का रिकार्ड तोड़ देंगे। पटेल गुजरात की नवसारी सीट से चुनाव लड़े थे और 6 लाख 89 हजार वोटों से जीते थे

. मंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह भी अभी तक इतने वोटों से जीत नहीं पाए हैं। वैसे यह 4 जून

को ही तय होगा कि लालवानी को कितने वोट मिल रहे हैं। हो सकता है किसी अन्य सीट पर लालवानी से अधिक वोट किसी को मिल जाएं। पिछले चुनाव में लालवानी को 5 लाख 46 हजार 556 वोटों से जीते थे। उन्हें 10 लाख 66 हजार 824 मत मिले थे और कुल मतदान 16 लाख 21 हजार 715 हुआ था।

जीत के और भी हैं रिकार्ड

रिकार्ड में दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का है जो 2014 के चुनव में बड़ौदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और उन्हें 5 लाख 70 हजार 128 बोटों से जीत मिली थी। तीसरे नंबर पर रामविलास पासवान हैं जो 1989 में 5 लाख 44 हजार 48

मतों से जीते थे। सर्वाधिक 9 बार सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद का रिकार्ड भी उनके नाम पर हैं। इसके बाद शंकरलालवानी का नाम है जिन्होंने पिछले चुनाव में ही अपने प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी से 5 लाख 46 हजार 336 वोटों से जीत दर्ज की थी।

कांग्रेस को पांच तो भाजपा को 10 फीसदी वोट ज्यादा मिलने की आस

इंदौर (इ)। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान सोमवार को मतदान के चौथे और ऑतम चरण के साथ पूरा हो गया। इसके साथ ही स्टार प्रचारक दूसरे राज्यों में कैपेन के लिए निकल गए। वहीं, प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी अब अपनी अपनी सीटों पर बूथों के हिसाब से हार जीत को लेकर गुणा-भाग लगाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बूथों पर तैनात एजेंटों के आंकडो से हिसाब लगाया जा रहा है। जिन बूथों से आंकड़े नहीं आए, दोनों ही पार्टी के नेता उस बूथ के एजेंट से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। बूथ एजेंटों के पास अपनी पार्टी के समर्थक कितने लोगों ने वोट डाले, बूथ पर कुल कितने वोट पड़े इसकी पूरी जानकारी रहती है। अब इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस-भाजपा समेत सभी दलों के प्रत अपना-अपना हिसाब लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनको पिछली बार से चार से पांच प्रतिशत वोट ज्यादा मिलेंगे। वहीं, भाजप 10 प्रतिशत वोट शेयर ज्यादा होने का दावा क कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृणाल चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस भाजप ज्यादा सीटों पर जीत रही है। पिछली बा कांग्रेस को 34.50 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बा भाजपा और उनके प्रत्याशियों के खिलाफ निराश है। कुणाल चौधरी ने कहा कि राजगढ़ जैसी सीट पर ज्यादा मतदान दिग्वजय सिंह के पक्ष मे माहौल के चलते हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छिंदवाडा, राजगढ, मंडला, मरैना और रतलाम सीट पर जीत रही है। भिंड, ग्वालियर, सतना रीवा, बालाघाट, भोपाल समेत अन्य सीटों पर भी कांग्रेस आगे दिख रही है।

नोटा के आंकड़ों को छोड़ होगी परिणामों की घोषणा

नजदीकी निर्दलीय प्रत्याशी से जीत तय होगी, नोटा नहीं गिना जाएगा

इंदौर(इ)। अब सभी को ४ जून का इंतजार है। भाजपा ने जहां अपने प्रत्याशी के लिए दम लगाया तो कांग्रेस ने भी नोटा को लेकर प्रचार किया और बताया कि भाजपा के गत्याणी को दसने के लिए नोटा का बटन दबाया जाए, लेकिन

नियमों के मुताबिक नोटा में कितने भी वोट पडे. उसकी गणना का असर जीते हए प्रत्याशी के अंतर पर नहीं पड़ेगा। उसकी जीत का आंकड़ा नजदीकी उम्मीदवार को मिले वोट के आधार पर ही निकाला जाएगा।

कांग्रेस हर विधानसभा से नोटा के अधिक से अधिक वोट आने का दावा कर रही है। कांग्रेस की कोशिश ऑतिम समय तक यही रही कि वह भाजपा प्रत्याशी की लीड कम कर सके। चुनाव परिणाम



आने के पहले ही लोगों ने जीते हुए प्रत्याशी के रूप में शंकर लालवानी को मान लिया और अब केवल जीत के अंतर का इंतजार है। जीत के अंतर में नोटा के वोट जरूर कट सकते हैं, क्योंकि ये किसी के खाते में नहीं जाते और न ही इन वोटों से किसी प्रत्याशी को मिले मत की तुलना की जाती है। लालवानी को अगर सबसे ज्यादा वोट मिलते भी हैं तो इसकी तुलना उनसे दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को मिले मत के आधार पर की जाएगी। इंदौर में लालवानी सहित 14 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें 5 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं और

निर्दलीय खडे हए हैं। ऐसे समझें काउंटिंग का गणित

..... मनोहर मेहता के अनुसार काउँटिंग तो 14 प्रत्यार्श और एक नोटा को मिलाकर ही होगी, लेकिन

जब जीत और हार का गणित निकाला जाएगा तब नोटा के वोट अलग कर दिए जाएंगे। मान लीजिए कल 100 प्रतिशत मतदान हुआ है और इन्हें गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी काउंटिंग होगी और जिस प्रत्याशी को जितने वोट मिले हैं, उसी आधार पर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। जो प्रत्याशी जीतेगा, उसकी जीत में नोटा के वोटों की संख्या न जोड़ते हुए नजदीकी प्रतिद्वंद्वी को मिले वोटों के आधार प जीत का अंतर निकाला जाएगा।

शांति ओवरसीस (इण्डिया) लिमिटेड

CIN: L74110MP2011 PLC 025807 03, इसमे पॉक्स, एन.एम. वर्ग, १/5 प्रमध्ने निवास गेड, इन्वेग (ग्र.प.) 452003 आईएन 31-4026586, +91-731-4026587 देसरा: mail@shantioverseas.com वेसस्ति: www.shantioverseas.com

क्रमांक	विवरण	तिमाही	समापन	वर्ष समापन		
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(अंकेषित)	(गैर अंकेषित)	(अंकेषित)	(अंकेषित)	(अंकेपित)
1.	संचालनों से कुल आय	122.04	289.29	502.32	1,142.95	14,961.62
2.	शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं/अथवा असाधारण मर्चे पर कर से पूर्व)	(61.41)	(42.63)	(1241.91)	(205.31)	(2308.63)
3.	सुद्ध लाभ/(हानि) कर पूर्व (असाधारण मदों के पश्चात)	(61.41)	(42.63)	(1241.91)	(205.31)	(2308.63)
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मर्चे के पश्चात)	(9.07)	(42.56)	(684.92)	(152.95)	(1,693.02)
5.	अर्थांभ की कुत व्यापक आप (अर्थांभ का सम्मितित लाभ/(हानि) एवं अर्थांथ की अन्य व्यापक आय कर पश्चात)	(8.95)	(42.57)	(685.08)	(152.87)	(1,691.86)
6.	पेड-अप इक्विटी शेवर पूंजी (अंकित मूल्य प्रत्येक रुपए 10/-)	1,110.60	1,110.60	1,110.60	1,110.60	1,110.60
7.	रिजर्ष (पुर्नः मूल्यकित रिजर्ष को छोडकर यत वर्ष की अंकेषित बैलेंस शीट के अनुसार)		-		286.46	439.79
8.	प्रतिशेयर आय (चालू एवं बंद संघालनों बाबद) (क) बेसिक	(0.08)	(0.38)	(6.17)	(1.38)	(15.24)
	(स) डाइंट्यटेड	(0.08)	(0.38)	(6.17)	(1.38)	(15.24)

१. स्टण्ड अलान वित्ताय पारणामा का आताखत सूचनाए निम्नानुसार ह :-						(रूपव लाख म)		
	क्रमांक	विवरण	तिमाही सम	तिमाही समापन				
			31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
			(अंकेचित)	(गैर-अंकेचित)	(अंकेचित)	(अंकेधित)	(अंकेचित)	
	1	संचलने से कुल आप (सुद्ध)	66.05	289.13	516.02	1,087.16	2,593.09	
	П	लाभ/हानि कर पूर्व	(43.12)	(16.27)	(774.99)	(126.34)	(1,447.69)	
	III	लाभ/हानि कर परचात	(10.93)	(16.27)	(434.16)	(94.94)	(1,051.72)	